

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ पन्ने हैं यह मापी पुस्तक श्री. ~~महेश्वर लाल~~ जी
सहायक अधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमणल २१ जूलाई को निर्गत
किया जाता है।

अधिकारी
१५/०८/२१

कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमणल, ग्रामीणी

१७/०८/२१

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2526

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of
 the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ist. on A/C Bill.					
Record of measurement	X				
N.W.:— Permanent Restoration of Rd.					
from Dattu Indira Chauhan - HH.					
N/A:— Sri Balaksh Kumar Chaudhary.					
Agreement No.: 41 F2/2021-22.					
Date of start— 11.06.2021.					
Date of completion— 10.7.2021.					

① Calculating area grubbing Rd.

Land = 100 - ETD.

$$2 \times 10 \times 30.00 \times 1.00 = 120.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 15.00 \times 1.00 = 30.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 1.80 \times 1.00 = 3.60 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 1.90 \times 1.00 = 3.80 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 7.70 \times 1.00 = 15.40 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 19.00 \times 1.00 = 38.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 5.80 \times 1.00 = 11.60 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 4.5 \times 1.00 = 9.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 1.00 \times 1.00 = 2.00 \text{ m}^2$$

$$\therefore 10,000 = 0.96 \text{ Hect.}$$

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Abutment of cat.(1) culminating or grubbing rel.

Level — do-do-B.I.

Qty. vid. T.M.B.P. NO. — (1),

$$0.026 \text{ H.C.C.} @ 54971 = 14/\text{H.C.C.} \cdot 1429 = 0$$

(2) P.Y. B.S. B. by small graded

material — do-B.I.

Qty. vid. T.M.B.P. NO. — (2),

$$56.27 \text{ m}^3 \text{ limit } 56.25 \text{ m}^3 @ 28(1) = 63/\text{m}^3 \cdot 160381 = 0$$

(3) P.Y. W.B. m. L.Y. III—do-B.I.

Qty. vid. T.M.B.P. NO. — (3),

$$36.50 \text{ m}^3 @ 3632 = 70/\text{m}^3 \cdot 132594 = 0$$

(4) P.Y. primary cont.—do-B.I.

Qty. vid. T.M.B.P. NO. — (3),

$$487.51 \text{ m}^2 \text{ limit } 487.50 \text{ m}^2 @ 43 = 53/\text{m}^2 \cdot 24146 = 0$$

(5) P.Y. tack cont.—do-B.I.

Qty. vid. T.M.B.P. NO. — (3),

$$487.51 \text{ m}^2 \text{ limit } 487.50 \text{ m}^2 @ 16 = 89/\text{m}^2 \cdot 171 = 0$$

(6) P.Y. min seal surfacing —

— do — do-B.I.

Qty. vid. T.M.B.P. NO. — (4),

$$487.51 \text{ m}^2 \text{ limit } 487.50 \text{ m}^2 @ 229 = 31/\text{m}^2 \cdot 112922 = 0$$

(7) P.Y. const. of sub-grade or erosion

shoulder — do — do-B.I.

Qty. vid. T.M.B.P. NO. — (4),

$$69.58 \text{ m}^3 @ 237 = 43/\text{m}^3 \cdot 16520 = 0$$

Continuation
C.O. - R.S. 456163 = 0

6

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement.				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

B.F.—RB 456 163 = 0

Addl. G.S.T + L.K. - 13% - (T) RB 593 01 = 0

Addl. — Sci midrage @ 10% on

material cost. — (T) RB 6 598 = 0

RB 5,98, 062 = 0

Limit — L.B. 5,18, 461 = 00

Ans.

(T)

12/1/21 03/07/21

J.E.

Continuation